



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1994/आश्विन 7, 1916

No. 406]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1994/ASVINA 7, 1916

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

सा.का.नि. 729(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश सं. 9) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “केबल आपरेटर” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल सेवा उपलब्ध कराना है या अन्यथा

केबल टेलीविजन नेटवर्क को नियंत्रित करता है या उसके प्रबंध और प्रचारन के लिए उत्तरदायी है;

(ख) “केबल सेवा” से अभिप्रेत है, कार्यक्रमों का केबलों द्वारा पारेषण, जिसके अन्तर्गत किन्हीं प्रसारण टेलीविजन संकेतों का केबलों द्वारा पुनः पारेषण भी है;

(ग) “केबल टेलीविजन नेटवर्क” से बहुत अभिवाताओं द्वारा ग्रहण के लिए केबल सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पित कोई ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो बन्द पारेषण पथों के सैट और सहयुक्त संकेत जनन, नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिल कर बनी है;

(घ) “कम्पनी” से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई कम्पनी अभिप्रेत है;

(ङ) “प्रारूप” से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(च) "व्यष्टि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है —

- (i) कोई व्यष्टि, जो भारत का नागरिक है;
- (ii) व्यष्टियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके सदस्य भारत के नागरिक हैं;
- (iii) कोई कम्पनी, जिसमें कम से कम इक्यावन प्रति-शत समादत्त शेयर पूंजी भारत के नागरिकों द्वारा पारित है;
- (छ) "कार्यक्रम" से कोई टेलीविजन प्रसारण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—
 - (i) वीडियो कैसेट रिकार्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर के माध्यम से फिल्मों, फीचरों, नाटकों, विज्ञापनों और धारावाहिकों का प्रदर्शन;
 - (ii) कोई श्रव्य या दृश्य या दृश्य-श्रव्य सीधा प्रदर्शन या प्रस्तुति और "कार्यक्रम सेवा" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।
- (ज) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश 1994 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (झ) "अभिदाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उसके द्वारा केबल आपरेटर को उपदर्शित किसी स्थान पर केबल टेलीविजन नेटवर्क का संकेत, उसे किसी अन्य व्यक्ति को आगे पारेषित किए बिना ग्रहण करता है।

3. भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन :—

- (1) भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में प्ररूप 1 में किया जाएगा और वह प्रत्येक बारह मास के पश्चात् नवीकरणीय होगा।
- (2) आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा और उसे प्ररूप 1 में उसके कार्यालय में परित्त किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा :—
 - (क) पोस्टल आर्डर सं डाकघर द्वारा पचास रुपए की फीस; और
 - (ख) प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजें।

4. आवेदनों की पड़ताल :—रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, नियम 3 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर अध्यादेश

की धारा 4 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की पड़ताल करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण :—रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अध्यादेश के उपबंधों को पूरा करता है, प्ररूप 3 में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परन्तु जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण, आवेदक को मंजूर नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह आवेदक को प्ररूप 4 में सूचित करेगा।

6. कार्यक्रम कोड :—(1) केबल सेवा में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिए :—

- (क) जो सुरुचि या शिष्टता का अतिवर्जन करता है,
- (ख) जिसमें भिन्न देशों की आलोचना अन्तर्विष्ट है;
- (ग) जिसमें धर्मों या समुदायों पर आक्षेप या ऐसे दृश्य या शब्द अन्तर्विष्ट हैं जो धार्मिक समूहों के संबंध में अवमानपूर्ण हैं या जो साम्प्रदायिक रूढ़ि को संप्रवर्तित करता है;
- (घ) जिसमें कोई बात अश्लील, मानहानिकारक, विमर्शित, मिथ्या और व्यंजनापूर्ण गर्भोक्त तथा अर्द्धसत्य अन्तर्विष्ट हैं;
- (ङ) जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिलने या भड़कने की संभावना है या जिसमें कोई बात विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के विरुद्ध अन्तर्विष्ट है या जो राष्ट्र विरोधी रूढ़ि को संप्रवर्तित करता है;
- (च) जिसमें कोई ऐसी बात अन्तर्विष्ट है जो न्यायालय अवमान की कोटि में आती है;
- (छ) जिसमें राष्ट्रपति और न्यायापालिका की सत्य-निष्ठा के प्रति दोषारोपण अन्तर्विष्ट हैं;
- (ज) जिसमें राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात अन्तर्विष्ट है;
- (झ) जो किसी व्यष्टि को व्यक्तिगत रूप से या कतिपय समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के खंडों की आलोचना करता है, निंदा करता है या अपमान करता है;
- (ञ) जो अंधविश्वास या विवेक शून्य विश्वास को प्रोत्साहित करता है;
- (ट) जो किसी नारी की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग को किसी रीति से इस प्रकार चित्रण करके बदनाम करता है जिसका अश्लील या नारी का अनादर सूचक प्रभाव है

या जिसमें सार्वजनिक सहाचार या नैतिक को विकृत, भ्रष्ट होना या क्षति पहुँचाने की संभावना है;

(3) जो बच्चों को बर्बाद करता है;

(4) जिसमें ऐसे दूषित या शब्द अन्तःकष्ट हैं या कतिपय जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों के चित्रांकन में असमानजनक, व्यापारिक और धर्म-धरा रख प्रतिबिम्बित करते हैं;

(5) जो चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(2) केवल आपरेटर को अपनी केवल सेवा में ऐसे कार्यक्रम करने का प्रयास करना चाहिए जो नारी के सकारात्मक, सौम्यता की नेतृत्व-भूमिका, नैतिक और नरिय निर्माण वाले गुणों को साकार करते हैं।

(3) केवल सेवा में बच्चों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रम सामान्यतः रात्रि 11.00 बजे के पश्चात् और सुबह 6.00 बजे के पहले किए जाने चाहिए।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों में कोई बुरी भाषा या हिंसा के सुस्पष्ट दृश्य न हों।

(5) केवल सेवा में बच्चों के लिए अनुपयुक्त कार्यक्रम ऐसे समय में नहीं दिखाए जाने चाहिए जब अधिकांश बच्चे देख रहे हों।

7. विज्ञापन फॉन्ड—(1) केवल सेवा में रखा जाने वाला विज्ञापन इस प्रकार परिकल्पित किया जाएगा जिससे कि वह देश की विधियों के अनुरूप हो और उससे अधिदाताओं की नैतिकता, भ्रष्टता और धार्मिक भावनाओं पर आघात नहीं पहुँचता चाहिए।

(2) ऐसा कोई विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो —

(1) किसी मूलभूत, जाति, रंग, पथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता है;

(2) भारत के संविधान के किसी उपबंध के विरुद्ध है;

(3) अपराध करने, अव्यवस्था फैलाने या हिंसा करने, यात्रा के भंग करने के लिए लोगों को भड़काने की प्रवृत्ति रखता है या किसी भी प्रकार से हिंसा या दहलीजता का गुणगान करता है;

(4) वांछनीय रूप में अपराधिता प्रस्तुत करता है;

(5) राष्ट्रीय संप्रतीक या संविधान के किसी भाग या किसी राष्ट्रीय नेता या किसी राजकीय उच्च पदस्थ के व्यक्तित्व का लोपण करता है;

(6) नारी चित्रण करते समय, सभी नागरिकों के लिए सांविधानिक गारंटी का अतिक्रमण करता है। विनिश्चितता ऐसा कोई विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो नारी के असमानजनक प्रतिरूप को साकार करता है नारी का चित्रण ऐसी रीति में नहीं किया जाना चाहिए जो निष्क्रिय-द्रव्य गुणों को महत्व देता है और उन्हें कुटुम्ब तथा सोसाइटी में अधीनस्थ, गौण भूमिका का निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। केवल आपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी केवल सेवा में किए जाने वाले कार्यक्रमों में नारी रूप का चित्रांकन सुरुचिपूर्ण और सौंदर्यपरक है और सुनिश्चित तथा भ्रष्टता के स्थापित मानकों के भीतर है।

(7) देहज, बाल-विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों में लाभ उठाता है।

(8) कोई ऐसा विज्ञापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके उद्देश्य पूर्णतः या मुख्यतः धार्मिक या राजनैतिक प्रवृत्ति के हैं, विज्ञापनो कालक्ष्य किसी धार्मिक या राजनैतिक उद्देश्य की ओर नहीं होना चाहिए।

(9) विज्ञापित माल या सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथा उल्लिखित कोई त्रुटि या कमी नहीं होगी।

(10) किसी विज्ञापन में ऐसे संदेश अंतर्निहित नहीं होंगे जिनसे जनता को यह अनुमान लगाने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद या इसके संघटकों में से किसी में विशेष या चमत्कारिक या आलौकिक गुण या क्वालिटी है, जिसका साबित किया जाना कठिन है।

(11) विज्ञापन का चित्र और शब्द वस्तु अत्यधिक रूप से प्रबल नहीं होगी।

(12) कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें बच्चों की सुरक्षा सफट में पड़ती हो या उनमें विकृत व्यवहार में कोई रुचि उत्पन्न होती हो या जिसमें उन्हें भिक्षा मांगते हुए या अमद्र या अश्लिष्ट रीति में दिखाया जाता है, केवल सेवा में नहीं रखा जाएगा।

(13) सभी विज्ञापनों में अश्लिष्ट अश्लील, उद्दीपक, अशुचिकर या धृष्टतादक प्रयोग या विवेचन से बचना होगा।

(14) कोई ऐसा विज्ञापन, जो भारतीय विज्ञापन अभिकरण संगम, मुंबई द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित विज्ञापन अभिकरणों के लिए पद्धति-मानकों का अतिक्रमण करता है, केवल सेवा में नहीं रखा जाएगा।

(15) सभी विज्ञापन स्पष्ट होंगे कि वे कार्यक्रम में सुनिश्चित होने चाहिए और कार्यक्रम में किसी भी रीति से बाधा

नहीं पहुँचना चाहिए, अर्थात् पर्चे के निचले भाग का कार्यक्रम के साथ-साथ स्थिर या चलते शीर्षक रखने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

8. रजिस्टर—प्रत्येक केबल आपरेटर प्ररूप 5 में वर्ष के प्रत्येक मास के लिए एक रजिस्टर रखेगा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है।

[फा. सं. 9/7/93—पी बी सी (वारूम-II)]

नवीन चावला, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

नियम 3(1) देखिए

[दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है]

केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के बिकिरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

प्रधान डाकपाल

प्रधान डाकघर

केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए, आवेदन

- (क) आवेदक का नाम (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का निकाय)
(ख) आयु
- (क) पता (कार्यालय)
(ख) टेलीफोन नम्बर (यदि कोई है)
- (क) राष्ट्रीयता
(ख) जन्म/अधिवास में
- (क) रजिस्ट्रीकरण फीस संलग्न है हां/नहीं
(ख) पोस्टल आर्डर संख्या तारीख
डाकघर
- वह क्षेत्र जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क कार्य कर रहा है/
स्थापित किया जाना प्रस्तावित है
- दिए गए/दिए जाने के लिए प्रस्तावित चैनलों की संख्या
(नाम सहित)
- (क) क्या टी.वी. आर.ओ. का हां/नहीं
उपयोग हो रहा है
(ख) यदि हां, तो संख्या और आकार हां/नहीं
(ग) अवस्थान
- केबल सेवा में सम्मिलित दूरदर्शन उपग्रह
(सेटलाइट) चैनलों के नाम

9. पूर्वतम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति हां/नहीं
संलग्न है
(केवल रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए
भरा जाए)

10. प्ररूप 2 में घोषणा संलग्न है हां/नहीं

मैं/हम आवेदक (व्यक्ति/फर्म
(कम्पनी/व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का निकाय) घोषणा
करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य सभी प्रकार से सही हैं।

आवेदन (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों
का संगम/व्यक्तियों का निकाय)
के हस्ताक्षर

स्थान : नाम

तारीख : पता

जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

प्ररूप 2

[नियम 3(1-3) देखिए]

मैं/हम, आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी
व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का निकाय) केबल आपरेटर की
हैसियत से रजिस्ट्रीकरण केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्री-
करण के नवीकरण के लिए, यह घोषणा करता हूँ/करते हैं
कि—

- (1) मैं/हम यह मुनिश्चित करूँगा/करेंगे कि मेरा/हमारा
केबल टेलीविजन नेटवर्क सभी समयों पर, केबल
टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994
के उपबन्धों के अनुसार चलाया जायेगा।
- (2) मैं/हम ऐसे किसी व्यक्ति को जो केबल टेलीविजन
नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 के अधीन केबल
टेलीविजन नेटवर्क चलाने का पात्र नहीं है, अपने केबल
टेलीविजन नेटवर्क को चलाने की अनुज्ञा नहीं दूँगा/
देंगे/उसको चलाने में सहयोगित नहीं करूँगा/करेंगे;
- (3) मैं/हम, अपने केबल टेलीविजन नेटवर्क के अभिदाता
(ओं) के समाधानप्रद रूप में अपनी पूरी योग्यता
से केबल सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा/करेंगे।
- (4) मैं/हम, अपनी पूरी योग्यता से यह मुनिश्चित करने
का प्रयास करूँगा/करेंगे कि मेरे/हमारे केबल टेलीविजन
नेटवर्क का किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए
उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (5) मैं/हम अपने केबल टेलीविजन नेटवर्क को चलाने
के लिए सुसंगत प्राधिकारी के माध्यम से अनुमोदन
(अनुमति प्राप्त करूँगा/करेंगे)।

- (6) मैं/हम भारत के भीतर केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाए जाने की बाबत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश का पालन करूंगा/करेंगे।

प्ररूप 4

[नियम 5 (3) का परन्तुक देखिए]

मेवा में

आवेदक के हस्ताक्षर
(व्यष्टि/फर्म/व्यष्टियों का संगम/
व्यष्टियों का निकाय)

स्थान : नाम
तारीख : पता :

*जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।

प्ररूप 3

(नियम 5 देखिए)

भारत सरकार

प्रधान डाकघर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

संख्यांक

श्री/श्रीमती/मैसर्स-----जो-----
-----का निवासी है,-----शहर/नगर
में निम्नलिखित पता-----पर
केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए मार्गस्थ-----
से बारह मास की अवधि के लिए केबल आपरेटर (व्यष्टि/
फर्म/कंपनी/व्यष्टियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय)
को हैसियत में रजिस्ट्रीकृत है/हैं।

1. उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या-----है।
2. यह प्रमाणपत्र केवल ऊपर वर्णित परिमर के लिए विधिमान्य है।
3. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तान्तरणीय है।
4. यह प्रमाणपत्र ऊपर उपदर्शित कालावधि तक या धारक जब तक केवल सेवा चलाता है या जहाँ प्रमाणपत्र का अप्यर्पण सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब तक विधिमान्य बना रहेगा।

स्थान : प्रधान डाकपाल
तारीख : प्रधान डाकघर
----- (नगर/शहर)

केवल आपरेटर के परिमर में प्रमुख रूप से संश्लेषित किया जाएगा।

*जो सम्बन्धित हों, उसे पर निशान लगाएं।

श्रीमान-----

केबल आपरेटर की हैसियत से रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन तारीख-----के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कारण(णों) से आवश्यक रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता :-

- (1) आवेदन अपूर्ण है।
- (2) रजिस्ट्रीकरण फीस नहीं दी गई है।
- (3) आवेदन भारत का नागरिक नहीं है।
- (4) आवेदन कम्पनी की इतयावन प्रतिशत से न्यून भमादन्त शेयर पूजी भारत के नागरिकों द्वारा धारित है।

स्थान : प्रधान डाकपाल
तारीख : प्रधान डाकघर

प्ररूप 5

(नियम 8 देखिए)

प्रत्येक केबल आपरेटर द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

क्रम प्रच्छन्न कार्यक्रम -----से तारीख मास वर्ष
संख्या चैनल -----तक की
अवधि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1
2.
3.
4.
5

केबल आपरेटर के हस्ताक्षर

नई दिल्ली, तारीख 29-9-94

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1994

G.S.R. 729(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Cable Television Networks

(Regulation) Ordinance, 1994 (Ordinance No. 9 of 1994), the Central Government makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cable Television Networks Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "cable operator" means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable television network ;

(b) "cable service" means the transmission by cables of programmes including re-transmission by cables of any broadcast television signals ;

(c) "cable television network" means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signals generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers ;

(d) "company" means a company defined in section 3 of the Companies Act, 1956 ;

(e) "form" means form appended to these rules ;

(f) "person" means :—

(i) an individual who is a citizen of India ;

(ii) an association of individuals or body of individuals, whether incorporated or not, whose members are citizens of India ;

(iii) a company in which not less than fifty one per cent of the paid up share capital is held by the citizens of India ;

(g) "Programme" means any television broadcast and includes :—

(i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials through video cassette recorders or video cassette players ;

(ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation ; and the expression "programming service" shall be construed accordingly ;

(h) "registering authority" means the registering authority notified under clause (h) of section 2 of the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance 1994 ;

(i) "subscriber" means a person who receives the signal of cable television network at a place indicated by him to the cable operator, without further transmitting it to any other person.

3. Application for registration as a cable television network in India.—(1) Every application for registration as a cable television network in India shall be made in writing in Form 1 and shall be renewable after every twelve months.

(2) The application shall be addressed to the Registering Authority and delivered to his office in Form 1.

(3) Every application shall be accompanied by :—

(a) a fee of Rs. 50/- vide Postal order No. _____ dated _____ on _____ Post Office ; and

(b) the requisite documents mentioned in Form 1 and 2.

4. Examination of Applications.—(1) On receipt of an application under rule 3 of registering authority shall examine the application having regard to the provisions of section 4 of the Ordinance.

5. Registration.—On being satisfied that the applicant fulfils the provisions of the Ordinance, the registering authority shall issue a registration certificate in Form 3.

Provided that where the registering authority is satisfied that the registration cannot be granted to the applicant, he shall inform the applicant in Form 4.

6. Programme code.—(1) No programme should be carried in the cable service which :—

(a) Offends against good taste or decency ;

(b) Contains criticism of friendly countries ;

(c) Contains attack on religions or communities or visuals or words contemptuous of religious groups or which promote communal attitudes ;

(d) Contains anything obscene, defamatory, deliberate, false and suggestive innuendos and half truths ;

(e) Is likely to encourage or incite violence or contains anything against maintenance of law and order or which promote anti-national attitudes ;

(f) Contains anything amounting to contempt of court ;

(g) Contains aspersions against the integrity of the President and Judiciary ;

(h) Contains anything affecting the integrity of the Nation ;

(i) Criticizes, maligns or slanders any individual in person or certain groups, segments of social, public and moral life of the country ;

(j) Encourages superstition or blind belief ;

(k) Denigrates women through the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent, or derogatory to women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals ;

(l) Denigrates children ;

(m) Contains visuals or words which reflect a slanderous, ironical and snobbish attitude in the portrayal of certain ethnic, linguistic and regional groups ;

(n) Contravenes the provisions of the Cinematograph Act, 1952.

(2) The cable operator should strive to carry programmes in his cable service which project women in a positive, leadership role of sobriety, moral and character building qualities.

(3) Programmes meant for adults should normally be carried in the cable service after 11 p.m. and before 6 a.m.

(4) Care should be taken to ensure that programmes meant for children do not contain any bad language or explicit scenes of violence.

(5) Programmes unsuitable for children must not be carried in the cable service at times when the largest numbers of children are viewing.

7. Advertising Code.—(1) Advertising carried in the cable service shall be so designed as to conform to the laws of the country and should not offend morality, decency and religious susceptibilities of the subscribers.

(2) No advertisement shall be permitted which :—

(i) derides any race, caste, colour, creed and nationality ;

(ii) is against any provision of the Constitution of India.

(iii) tends to incite people to crime, cause disorder or violence or breach of law or glorifies violence or obscenity in any way ;

(iv) presents criminality as desirable ;

(v) attacks the national emblem or any part of the Constitution or the person or personality of a national leader or a State dignitary ;

(vi) in its depiction of women violates the Constitutional guarantees to all citizens. In particular, no advertisement shall be permitted which projects a derogatory image of women. Women must not be portrayed in a manner that emphasises passive, submissive qualities and encourages them to play a subordinate, secondary role in the family and society. The cable operator shall ensure that the portrayal of the female form, in the programmes carried in his cable service is tasteful and aesthetic, and is within the well established norms of good taste and decency ;

(vii) Exploits social evils like dowry, child marriage.

(3) No advertisement shall be permitted the objects whereof are wholly or mainly of a religious or political nature; advertisements must not be directed towards any religious or political end.

(4) The goods or services advertised shall not suffer from any defect or deficiency as mentioned in Consumer Protection Act, 1986.

(5) No advertisement shall contain references which are likely to lead the public to infer that the product advertised or any of its ingredients has some special or miraculous or super natural property or quality which is difficult of being proved.

(6) The picture and the audible matter of the advertisement shall not be excessively 'loud'.

(7) No advertisement which endangers the safety of children or creates in them any interest in unhealthy practices or shows them begging or in an undignified or indecent manner shall not be carried in the cable service.

(8) Indecent, vulgar, suggestive repulsive or offensive themes or treatment shall be avoided in all advertisements.

(9) No advertisement which violates the standards of practice for advertising agencies as approved by the Advertising Agencies Association of India, Bombay, from time to time shall be carried in the cable service.

(10) All advertisement should be clearly distinguishable from the programme and should not in any manner interfere with the programme viz., use of lower part of screen to carry captions, static or moving alongside the programme.

8. Register.—Each cable operator shall maintain a register in Form 5 for each month of the year for which the registration is granted.

[F. No. 9/7/93-PBC. Vol. II]

NAVIN CHAWLA, Jt. Secy.

FORM 1

[See rule 3 (i)]

(To be submitted in duplicate)

Form of application for registration/renewal of registration as a cable operator.

To

The Head Postmaster
Head Post Office

Application for registration/renewal of registration as a cable operator.

1. (a) Name of Applicant (individual/firm/company/association of persons/body of individuals)*

(b) Age

2. (a) Address (Office).

(b) Telephone number (if any).

3. (a) Nationality

(b) By birth/domicile

4. (a) Registration fee enclosed Yes/No

(b) Postal order No. _____ dated _____ on _____
Post office.

5. Area in which cable television network is working/proposed to be set up.

6. Number of channels being provided/proposed to be provided (with names).

7. (a) Whether using TVRO

Yes/No

(b) If Yes number and size

(c) Location.

8. Names of Doordarshan satellite channels included in cable service.

9. Copy of earlier registration certificate enclosed.
(To be filled in only for renewal of registration).

Yes/No

10. Declaration if Form 2 enclosed

Yes/No

I/We _____ the applicant(s) (individual/firm/company/association of persons/body of individuals) do hereby declare that the above facts are correct in all respects.

Signature of Applicant

(individual/firm/company/association of persons/body of individuals)

Place :

Name _____

Date :

Address _____

* Score out the word or words which are not applicable.

FORM 2

[See rule 3(1-3)]

I/We _____ the applicant(s) (individual/firm/company/association of persons/body of individuals)* for registration as a cable operator/renewal of registration as a cable operator do hereby declare that:—

(i) I/We shall ensure that my/our cable television network shall be run in accordance with the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance, 1994 at all times.

(ii) I/We shall not permit/associate any person who is not eligible to run a cable television network under the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance, 1994 to run/with the running of my/our cable television network.

(iii) I/We shall strive to the best of my/our ability to provide cable service to the satisfaction of the subscriber(s) of my/our cable television network.

(iv) I/We shall strive to the best of my/our ability to ensure that my/our cable television network is not used for any unlawful purpose.

(v) I/We shall obtain the necessary approval/clearance from the relevant authority for the running of my/our cable television network.

(vi) I/We shall abide by any direction issued by the Central Government in respect of the running of a cable television network within India.

competent authority.

Head Post Master
Head Post Office
_____(town/city)

Signature of Applicant
(individual/firm/company/
association of persons/body
of individuals)

Place :

Date :

**TO BE DISPLAYED PROMINENTLY ON THE PREMISES
OF THE CABLE OPERATOR.**

*Tick whichever is appropriate.

FORM 4

[See proviso to rule 5(3)]

Place :

Date :

*Score out the word or words which are not applicable.

FORM 3

(See rule 5)

Government of India

Head Post Office

REGISTRATION CERTIFICATE

NUMBER

Shri/Shrimati/M/s. _____ resident of _____ is registered as a cable operator (individual, firm, company, association of persons or body of individuals)* for running a cable television network at the following address _____ in the city/town of _____ for a period of twelve months with effect from _____. His Registration Number is _____.

2. This Certificate is only valid for the premises stated above.

3. This Registration Certificate is not transferable.

4. The Certificate shall remain valid for the period indicated above or till the holder carries on the cable service or where the surrender of the certificate is accepted by the

To _____

Sir,

Reference your application dated _____ for registration as a cable operator. The necessary registration cannot be granted to you for the following reason(s) :—

- (i) Application is incomplete.
- (ii) Registration fee has not been tendered.
- (iii) Applicant is not a citizen of India.
- (iv) Less than fifty one percent of the paid-up share capital of the applicant company is held by citizens of India.

Head Post Master
Head Post Office

Place :

Date :

FORM 5

(See rule 8)

Form of register to be maintained by each cable operator.

Sl. No.	Encrypted channel/ Programme	Duration	Date	Month	Year
		From	to		
1	2	3	4	5	6
					7

Signature of cable operator.